



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

पो-161

कम-12

डिप्ट 01

EPB-148

सं. 11]

No. 11]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2008/ज्येष्ठ 29, 1930

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2008/JYAISTHA 29, 1930

प्रा

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2008

का.नि.आ. 15(अ).—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 15 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 अगस्त, 2008 को ऐसी तारीख के रूप में निर्देशित करती है, जिसको बादामीबाग छावनी बोर्ड के वार्ड संख्या I, III, IV, VI और VII का निर्वाचन होगा।

[फा. सं. 14(1)/2007/डी (क्यू एंड सी)]

आनंद मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2008

S.R.O. 15(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 and sub-section (1) of Section 16 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby directs the 10th August, 2008 as the date on which elections in respect of Ward numbers, I, III, IV, VI and VII to the Cantonment Board, Badamibagh shall be held.

[F. No. 14(1)/2007/D(Q & C)]

ANAND MISRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2008

प्रभा

रा० वि० एड

का.नि.आ. 16(अ).—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 15 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 अगस्त, 2008 को ऐसी तारीख के रूप में निर्देशित करती है, जिसको खासयोल छावनी बोर्ड का निर्वाचन होगा।

[फा. सं. 14(1)/2007/डी (क्यू एंड सी)]

आनंद मिश्रा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2008

S.R.O. 16(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 and sub-section (1) of Section 16 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby directs the 10th August, 2008 as the date on which elections to the Cantonment Board, Khasyol shall be held.

[F. No. 14(1)/2007/D(Q & C)]

ANAND MISRA, Jt. Secy.